



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

4 दिसंबर, 2020

संख्या 49

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019		2020		घट – बढ़	
	29 नवंबर		20 नवंबर		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2230709	2743964	2744167	203	513458	
1.1 संचलन में नोट	2230697	2743952	2744155	203	513458	
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	12	12	0	0	
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	100	101	100	-1	0	
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	–	
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542975	471488	461900	-9588	-81075	
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4657	5209	5547	338	890	
2.6 अन्य बैंक	34263	27981	29748	1767	-4515	
2.7 अन्य	314913	983912	948279	-35633	633366	
3 अन्य देयताएं	1135150	1465565	1462954	-2611	327804	
कुल देयताएं / आस्तियां	4262809	5698262	5652737	-45525	1389928	
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3032772	3982294	3979928	-2366	947156	
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	191164	267074	260651	-6423	69487	
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1001936	1281765	1282067	302	280131	
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	
4.2 राज्य सरकारें	1261	10731	2112	-8619	851	
4.3 नाबार्ड	–	23246	23596	350	23596	
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	23012	114711	77097	-37614	54085	
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	–	–	–	–	–	
4.8 अन्य	4913	10563	18919	8356	14006	
5 खरीदे और धुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	–	–	–	–	–	
5.2 खज़ाना	–	–	–	–	–	
6 निवेश	1964	1964	1964	0	–	
7 अन्य आस्तियां	5787	5914	6403	489	616	

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	27 नवंबर 2020		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
	को		सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4257257	574821	-8942	-469	655102	97014	1021364	123741
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951006	533455	-2345	352	617191	91242	942605	114088
1.2 स्वर्ण	260651	35192	-6424	-822	30124	4614	69487	8544
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11069	1494	2	2	268	62	769	59
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34532	4679	-175	-1	7519	1096	8504	1050

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

04 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹438471 करोड़	2020													
	21 नवंबर	22 नवंबर	23 नवंबर	24 नवंबर	25 नवंबर	26 नवंबर	27 नवंबर	28 नवंबर	29 नवंबर	30 नवंबर	1 दिसंबर	2 दिसंबर	3 दिसंबर	4 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	431462	431258	432867	432828	428744	428734	461900							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	98.4	98.4	98.7	98.7	97.8	97.8	105.3							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	20 नवंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	201111	-2074	2931	-33237	32193	21352
1.2 बैंकों से उधार	40318	-14272	-18082	-23683	-6485	-21059
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16474	-10	-3008	310	2361	4343
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14370700	-32612	384702	803208	1144899	1412227
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.2	3.1	5.9	9.7	10.9
2.1.1 मांग	1511517	16495	-179548	-105486	105777	179778
2.1.2 मीयादी	12859183	-49107	564249	908694	1039122	1232449
2.2 उधारियां	264021	5748	-56083	-45417	-26825	-58149
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	666517	59862	-35874	62841	-5706	158745
3 रिज़र्व बैंक से उधार	114711	248	-156442	-170912	-120326	90465
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	558067	21693	-38138	-65380	49631	-44379
4.1 उपलब्ध नकदी	86579	1062	10107	-682	8742	1595
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	471488	20631	-48245	-64698	40889	-45974
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	145811	-12069	5720	-9590	22247	-82957
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9245	-2531	-13511	-11028	-3235	-9497
5.3 बैंकों को अग्रिम	20825	-193	-3821	-9706	-7095	-4989
5.4 अन्य आस्तियां	30608	-1187	-8545	-23424	8488	-3725
6 निवेश	4425325	-51337	338512	677976	293407	705757
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.1	10.0	18.1	8.6	19.0
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4423853	-51381	336867	685157	290781	707985
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1472	44	1646	-7181	2626	-2229
7 बैंक ऋण	10434550	15279	88580	63689	727676	574247
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	0.9	0.6	8.0	5.8
7 क.1 खाद्य ऋण	88956	5325	49694	37192	19016	-2348
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10345594	9954	38886	26497	708660	576595
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10268747	17764	140192	119238	741399	606561
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	23915	-289	-2598	-1743	4279	289
7 ख.3 भुनाए गए	97069	-2026	-37944	-48614	-14312	-23283
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	16331	-225	-1515	-4126	-1209	-6741
7 ख.5 भुनाए गए	28488	55	-9555	-1066	-2481	-2579

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	29 नवंबर	30 अक्टूबर	6 नवंबर	13 नवंबर	20 नवंबर	27 नवंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.72	..	3.88	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	72.34	..	72.61	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	5.79	..	7.93	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	31.08	..	30.79	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	87.26	..	84.41	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/6.60	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.03	3.19	3.17	3.20	3.13	3.10
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.99	3.20	3.17	3.14	2.98	2.93
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.12	3.36	3.36	3.35	3.34	3.26
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.14	3.45	3.43	3.45	3.42	3.39
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.65	5.91	5.90	5.91	5.92	5.84
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.73	73.97	74.05	74.67	74.16	73.80
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	78.98	86.97	87.52	88.15	88.15	88.02
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.35	3.24	3.32	3.37	3.32	3.36
3-माह	3.35	3.46	3.51	3.54	3.56	3.52
6-माह	3.76	3.89	3.94	4.07	4.18	4.23

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	20 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17938242	3387	0.0	513682	3.3	1138278	6.8	1426974	9.8	1992493	12.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2673572	35885	1.4	120278	5.9	323823	13.8	248042	12.9	501084	23.1
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1632939	17103	1.1	-178552	-11.0	-104753	-6.0	109695	8.2	184979	12.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13589828	-49846	-0.4	571385	4.9	915812	7.2	1062688	9.5	1296839	10.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41904	246	0.6	570	1.8	3396	8.8	6549	25.4	9592	29.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5691514	-24555	-0.4	502352	11.4	731152	14.7	546252	12.6	800672	16.4
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1023947	27601		163487		31755		252717		58509	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4667567	-52156	-1.1	338865	9.4	699397	17.6	293535	8.1	742163	18.9
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11092054	12505	0.1	85551	0.8	53410	0.5	743970	7.7	623784	6.0
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	12173	-2761		-8219		-993		-2174		5029	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11079881	15266	0.1	93770	0.9	54403	0.5	746144	7.7	618755	5.9
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4493779	45858	1.0	354381	11.5	692743	18.2	495510	16.9	1068558	31.2
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26541	-	-	235	0.9	193	0.7	426	1.7	418	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3365646	30420	0.9	428837	17.6	339219	11.2	359184	14.3	500939	17.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1464944	-6659	-0.5	78296	7.4	86602	6.3	47123	4.3	327853	28.8

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	27 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3313134	-3940	-0.1	103815	3.7	283427	9.4	317423	12.4	438838	15.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2770696	203	0.0	120105	5.6	323384	13.2	260976	13.1	513820	22.8
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	497195	-7483	-1.5	-20074	-3.3	-46693	-8.6	46580	8.7	-84700	-14.6
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	45244	3340	8.0	3784	11.9	6736	17.5	9867	38.5	9718	27.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1036501	12554		199298		44309		215480		35252	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1034431	21173		199557		44690		214937		34401	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-534309	-16715		-393329		-333416		-288423		-293831	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-545484	-15717		-384843		-331425		-286322		-298129	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4246261	-2864	-0.1	373698	13.1	655858	18.3	483640	17.7	1023976	31.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26541			291	1.1	193	0.7	392	1.5	362	1.4
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1461859	-3085	-0.2	76143	7.2	83517	6.1	93666	9.0	326921	28.8

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
23 नवंबर 2020	-	652825	-	-	34	350	-	-	-	-	-	-	-493	-652934
24 नवंबर 2020	-	653535	-	-	44	-	-	-	-	-	-12773	-	-	-666264
25 नवंबर 2020	-	646452	-	-	0	-1325	-	-	-	-	-8091	-	-493	-656361
26 नवंबर 2020	-	673385	-	-	84	1	-	-	-	-	-6974	-	-	-680274
27 नवंबर 2020	-	646182	-	-	0	-	-	10000	10000	-	-9510	-	-	-655692
28 नवंबर 2020	-	2290	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-2220
29 नवंबर 2020	-	588	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-446

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.8	147.2	156.4	158.4	1.3	6.6	7.6
1.1 ग्रामीण	146.7	148.3	157.5	159.7	1.4	6.6	7.7
1.2 शहरी	144.7	146.0	155.2	156.8	1.0	6.4	7.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	118.1	119.5	1.2	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	122.0	122.9	123.8	0.7	2.8	1.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	143.0	145.5	150.3	152.4	1.4	10.9	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	102.3	91.0	91.1	0.1	- 8.4	- 10.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.9	117.8	119.8	120.3	0.4	1.4	2.1

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
23 अक्टूबर 2020	78340	4635	3.65 - 4.25
6 नवंबर 2020	76335	1687	3.83 - 3.84

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
31 अक्टूबर 2020	380112	40839	3.19 - 14.19
15 नवंबर 2020	389427	57002	3.09 - 11.32

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	29 नवंबर 2019	20 नवंबर 2020	27 नवंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18304	10765	12157
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4352	4858	1319
3 सीबीएलओ#	379116	515057	411117
4 बाजार रेपो	259645	380750	273258
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	2953	8110	1208

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

27 नवंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2001	12584	71680	207909
182-दिवसीय	126536	38808	4233	263589
364-दिवसीय	140904	120831	16367	409355
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (27 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (29 नवंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (27 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (29 नवंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	927000	554000	710000	796428	452972	473972
2. राज्य सरकारें	491026	330827	634521	401996	234559	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।